



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 276] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 14, 1984/ज्येष्ठ 24, 1906
No. 276] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 1984/JYAISTHA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 1984

(चाय नियंत्रण)

का. आ. 443(अ) :—केन्द्रीय सरकार, चाय नियम, 1954 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को 31 मार्च, 1987 तक के लिए चाय बोर्डों का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ.

314 (अ), तारीख 19 अप्रैल, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “चाय एस्टेट तथा बागानों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति” शीर्षक के नीचे की निम्नलिखित प्रविष्टि, क्रम सं. 1 संबंधित प्रविष्टि के रूप में संख्यांकित की जाएगी और इस प्रकार संख्यांकित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

2. श्री भगानी णल, महासचिव- नेशनल यूनियन आफ प्लान्टेशन वर्कर्स, पी. ओ. बीरपाड़ा, जिला जलपाइगुड़ी (बंगाल)
3. श्री पी. एस. छटोवार, महासचिव, असम चाय मजदूर संघ, जीवन फूल्का नगर, डिब्रूगढ़ (असम)
4. श्री के. राजगोपाल महासचिव, एस्टेट स्टाफ यूनियन आफ साउथ इंडिया, 44बी, वेस्ट वेंकटस्वामी रोड, आर. एस. एम्, कोयंबटूर (तमिलनाडु)''

[फा. सं. टी-12012 (1)/84-प्रां. (ए)]

बी. सी. पाण्डे, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 1984

(Tea Control)

S.O. 443(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) read with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954 the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Tea Board until the 31st day of March, 1987 and makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 314(E) dated 19th April, 1984, namely :—

In the said notification, the existing entry under the heading “Persons representing employees of tea estates and gardens” shall be numbered as entry relating to serial number 1 and after the entry so numbered, the following serial numbers and entries shall be added namely :—

2. Shri Bhabani Pal, General Secretary, National Union of Plantation Workers, PO BIRPARA, Dist. Jalpaiguri (Bengal)
3. Shri P. S. Ghatowar, General Secretary, Assam Chah Mazdoor Sangh, Jiban Phukan Nagar, DIBRUGARH (ASSAM)
4. Shri K. Rajagopal, General Secretary, Estate Staff Union of South India, 44B, West Venkatasamy Road R. S. Puram, COIMBATORE (Tamilnadu)".

[F. No. E-12012(1) 84-Plant(A)]

V. C. PANDE, Addl. Secy.

